

77

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 381] नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 13, 1969/कार्तिक 22, 1891
No. 381] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 1969/KARTIKA 22, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November 1969

S.O. 4629.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 138 and sub-section (1) of section 13C of the Representation of the People Act, 1950, and in supersession of its Notification No. 429/DL/66, dated the 23rd July, 1966, the Election Commission hereby appoints in respect of each of the parliamentary constituencies in the Union Territory of Delhi, specified in column (1) of the Table below,

- (a) the officer designated in the corresponding entry in column (2) of the said Table to be the Electoral Registration Officer; and
- (b) the officer designated in the corresponding entry in column (3) of the said Table to be the Assistant Electoral Registration Officer.

TABLE

Name of the constituency	Electoral Registration Officer	Assistant Electoral Registration Officer
1	2	3
1. New Delhi	Sub-Divisional Magistrate, Chanakyapuri.	Sub-Divisional Magistrate, Haus Khas.

I	2	3
2. South Delhi . . .	Sub-Divisional Magistrate, Lajpat Nagar.	Sub-Divisional Magistrate, Delhi Cantonment.
3. Outer Delhi . . .	Sub-Divisional Magistrate, Punjabi Bagh.	Sub-Divisional Magistrate, Kingsway Camp.
4. East Delhi . . .	Sub-Divisional Magistrate, Shahdara.	Sub-Divisional Magistrate, Railway.
5. Chandni Chowk . . .	Sub-Divisional Magistrate, Kotwali.	Sub-Divisional Magistrate, Kamla Market.
6. Delhi Sadar . . .	Sub-Divisional Magistrate, Sadar.	Sub-Divisional Magistrate, Civil Lines.
7. Karol Bagh (SC.) . . .	Sub-Divisional Magistrate, Karol Bagh.	Sub-Divisional Magistrate, Original Road.

[No. 429/DL/69.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1969

एस० प्रो० 4629.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13-ख की उपधारा (1) तथा धारा 13-ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना संख्या 429/दिल्ली/66 तारीख 23 जुलाई 1966 को अतिष्ठित करके निर्वाचन आयोग निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में के हर एक संसदीय-निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में—

(क) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्समान प्रविष्टि में पदाभिहित आफिसर को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर; तथा

(ख) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्समान प्रविष्टि में पदाभिहित आफिसर को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर,

एतद्वारा नियुक्त करता है—

सारणी

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
1	2	3
1. नई दिल्ली	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट चाणक्यपुरी	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, होज खास ।
2. दक्षिणी दिल्ली	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट लाजपतनगर	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दिल्ली छावनी
3. बाह्य दिल्ली	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, पंजाबी बाग	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, किंगसे कैम्प

1	2	3
4. पूर्वी दिल्ली	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाहदरा	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, रेलवे ।
5. चान्दनी चौक	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, कोतवाली	उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कमला मार्किट ।
6. दिल्ली सदर	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, सदर	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, सिविल लाइन्स ।
7. करौल बाग (प्र० जा०)	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, करौल बाग	उप-खण्ड मजिस्ट्रेट, प्रोरिजनल रोड ।

[संख्या 429/दिल्ली/69]

आवेष्टा से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव, ।

